

QUIZ
PART-03
अध्याय - 3 | निजी, सार्वजनिक एवं भूमंडलीय उपक्रम

1. सरकारी कम्पनी किस अधिनियम के तहत स्थापित की जाती है?

- A. साझेदारी अधिनियम 1932
 B. कम्पनी अधिनियम 2013
 C. सहकारी समिति अधिनियम 1912
 D. कम्पनी अधिनियम 1956 (B)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी की स्थापना भारतीय कम्पनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत होती है।

2. सरकारी कम्पनी वह है जिसमें सरकार की भागीदारी कम से कम कितनी होती है?

- A. 25%
 B. 49%
 C. 51%
 D. 75% (C)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी कहलाने के लिए कम से कम 51% चुकता अंशपूँजी सरकार के पास होना आवश्यक है।

3. निम्न में से कौन सरकारी कम्पनी का उदाहरण है?

- A. अमूल
 B. मारुति सुजुकी
 C. ONGC
 D. रिलायंस (C)

व्याख्या: ONGC, CIL, GAIL आदि प्रसिद्ध सरकारी कम्पनियाँ हैं।

4. सरकारी कम्पनी पर कौन-सा नियंत्रण लागू होता है?

- A. केवल निजी बोर्ड का
 B. केवल जनता का
 C. कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों का
 D. कोई नियंत्रण नहीं (C)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी का प्रबंधन किसी अन्य सार्वजनिक कम्पनी की तरह कम्पनी अधिनियम के अनुसार चलता है।

5. सरकारी कम्पनी अनुबंध किसके नाम से कर सकती है?

- A. सरकार के नाम से
 B. कर्मचारी के नाम से
 C. अपने नाम से
 D. किसी भी निजी संस्था के नाम से (C)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी अपना स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व रखती है और अपने नाम से अनुबंध कर सकती है।

6. सरकारी कम्पनी के कर्मचारियों की नियुक्ति किसके आधार पर होती है?

- A. सरकारी सेवा नियमों के आधार पर
 B. कम्पनी के उद्देश्य पत्र एवं अंतर्नियम के आधार पर
 C. संसद के आदेश से
 D. रजिस्ट्रार के नियमों से (B)

व्याख्या: कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी के उद्देश्य पत्र और अंतर्नियम में दिए गए प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

7. निम्न में से सरकारी कम्पनी का एक प्रमुख लाभ क्या है?

- A. कोई कानूनी औपचारिकता नहीं होती
 B. प्रबंधन में पूर्ण स्वतंत्रता
 C. सभी निर्णय संसद लेती है
 D. अंशों के हस्तांतरण पर रोक (B)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी को प्रबंधन से जुड़े निर्णय लेने में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है।

8. सरकारी कम्पनी की एक सीमा क्या है?

- A. अत्यधिक निजी नियंत्रण
 B. संवैधानिक दायित्व का पालन
 C. राजनीतिक हस्तक्षेप
 D. अंशधारकों की कमी (C)

व्याख्या: सरकारी नियंत्रण के कारण कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप इनके कार्य में बाधा बन सकता है।

9. लेखांकन और अंकेक्षण के मामले में सरकारी कम्पनी—

- A. पूरी तरह मुक्त होती है
 B. निजी कम्पनी की तरह स्वतंत्र होती है
 C. सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा जाँची जाती है
 D. किसी परीक्षण से नहीं गुजरती (C)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी का अंकेक्षण सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों से कराया जाता है।

10. सरकारी कम्पनी अपने लिए वित्त की व्यवस्था कैसे करती है?

- A. केवल सरकारी करों से
 B. केवल निजी निवेश से
 C. सरकारी व निजी—दोनों प्रकार के अंशधारकों से
 D. केवल बैंकों के ऋण से (C)

व्याख्या: सरकारी कम्पनी अपने लिए सरकारी तथा निजी दोनों प्रकार के अंशधारकों से वित्त जुटाती है।